

Hindi 7th



मौखिक

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

1. उड़ीसा में कब से कब तक कलापूर्ण मन्दिरों के निर्माण का क्रम जारी रहा?
2. कोणार्क और चन्द्रभागा अंचल को पुराणों में क्या कहा गया है?
3. कोणार्क मन्दिर में कौन-सी स्थापत्य कला का प्रयोग हुआ है?
4. कोणार्क मन्दिर किसके आकार का है?



लिखित

क. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. किस मन्दिर के निर्माण के बाद निर्माण का क्रम टूट गया?

2. कोणार्क मन्दिर के जगमोहन के बारे में बताइए।

3. कोणार्क के घोड़ों के सम्बन्ध में हार्बेल ने क्या लिखा है?

4. कोणार्क मन्दिर में कितने प्रकार की मूर्तियाँ हैं?

5. कोणार्क मन्दिर के बारे में क्या जनश्रुति है?

English 7th

A. Multiple Choice Questions (MCQs)

Tick (✓) the correct option:

1. The two batsmen who batted very well were _____.
(a) Mr Dumkins and Mr Podder. ☐ (b) Mr Luffy and Mr Struggles. ☐
(c) Mr Pickwick and Mr Podder. ☐ (d) None ☐
2. Which of the following statements is not true of the cricket match?
(a) The fielders of Dingley Dell were changed during the match. ☐
(b) Dingley Dell had four runs while All-Muggletons scored fifty-four. ☐
(c) Mr Dumkins was caught out and Mr Podder was stumped. ☐
(d) Both (a) and (b) ☐

B. Fill in the blanks:

1. All-Muggleton had the first _____.
2. The umpires were _____ behind the wickets.
3. _____ waited for its coming with his eyes fixed on the movement of _____.
4. Dumkins and Podder _____ unconquered.
5. All-Muggleton had made _____ while the score of the Dingley Dell was as blank as their _____.

C. Answer the following questions:

1. Who were the two batsmen from the All-Muggleton?
2. Who were the bowlers from the Dingley Dell?
3. What were the scorers supposed to do?

Maths

1. Solve the following equations :

(a) $y + 2 = 3$

(b) $n - 3 = 8$

(c) $l - 2 = -4$

(d) $x - 1 = 2$

(e) $y + 4 = -4$

(f) $n + 3 = -6$

(g) $m + 4 = 6$

(h) $x + 6 = -6$

2. Solve the following equations and check the result :

(a) $4m = 12$

(b) $10p = 80$

(c) $9m = 26$

(d) $8y = 36$

(e) $3n = 27$

(f) $-3n = 7$

(g) $4x = 40$

(h) $16k = -32$

3. Solve the following equations :

(a) $\frac{b}{2} = 3$

(b) $\frac{3p}{10} = 6$

(c) $\frac{3m}{5} = \frac{4}{9}$

(d) $\frac{p}{4} = 7$

(e) $\frac{-p}{3} = 7$

(f) $-6x = \frac{14}{23}$

(g) $\frac{z}{3} = \frac{5}{4}$

(h) $2m = \frac{8}{3}$

4. Solve the following equations :

(a) $3s + 18 = 0$

(b) $-3p + 8 = -4$

(c) $4s = 0$

(d) $2q - 6 = 0$

(e) $5m + 6 = 21$

(f) $9t + 6 = -4$

(g) $4m + 8 = 0$

(h) $7t + 5 = 0$

SCIENCE 7th

B. Fill in the blanks :

1. Electric current in a circuit flows from a point at _____ potential to a point which is at _____ potential.
2. Longer line in the symbol for a cell represents its _____ terminal.
3. An electromagnet is a _____ magnet.
4. A bulb is filled with _____ at low pressure to prevent vaporisation of the filament.
5. _____ is used to make electromagnets.

C. Write True or False against each statement :

1. A battery is made by connecting positive terminal of one cell with the positive terminal of the other cell. ☐
2. An electric bell works on the principle of electromagnetism. ☐
3. MCB works on the heating effect of electric current. ☐
4. An electromagnet does not attract a piece of iron. ☐
5. Short circuit is caused due to heating effect of current. ☐

D. Match the following :

Column I

1. Electromagnet
2. Protective device
3. Tungsten
4. Nichrome
5. Potential difference

Column II

- (i) Electric fuse
- (ii) Magnetic compass
- (iii) Volt
- (iv) High-melting point
- (v) High resistance